




सत्यमेव जयते



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 1981/चैत्र 6, 1903

No. 111]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 1981/CHAITRA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1981

सीमा-शुल्क

सं० का० नि० 216 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 186-सीमा-शुल्क, तारीख 9 नवम्बर, 1980 को अधिकांत करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत आने वाली ऐलुमिनियम तार शलाकाओं या ऐलुमिनियम मिल्लियों को अब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्वहणीय समस्त सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं० 74/का० सं० 355/8/81-सी०शु० I]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 216(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of

Revenue, No. 186-Customs, dated the 9th September, 1980 the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts aluminium wire rods or aluminium ingots, falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule

[No. 74/F. No. 355/8/81-Cus. I]

सं० का० नि० 217 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1981 के खण्ड 47, जो खण्ड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के उपखण्ड (4) के माध्यम से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत आने वाली ऐलुमिनियम तार शलाकाओं या ऐलुमिनियम मिल्लियों को, अब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खण्ड 47 के उप-खण्ड (1) के अधीन उन पर उद्वहणीय सहायक सीमाशुल्क के उक्त भाग से, जो प्रथम उल्लिखित अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार अवधारित मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

[सं० 75/का० सं० 305/8/81-सी०शु० I]

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 47 of the Finance Bill, 1981, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public

interest so to do, hereby exempts aluminium wire rods or aluminium ingots, falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from so much of that portion of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 47 of the said Finance Bill, as is in excess of five per cent of the value as determined in accordance with the Provisions of section 14 of the first mentioned Act.

[No. 75/F. No. 355/8/81-CUS. I]

सं. 75/फा.सं. 355/8/81-सी.शु. I—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 176-सीमा-शुल्क तारीख 29 अगस्त, 1980 को निम्नलिखित करती है।

[सं. 76/फा.सं. 355/8/81-सी.शु. I]

G.S.R. 218(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 176-Customs, dated the 29th August, 1980.

[No. 76/F. No. 355/8/81-Cus. I]

सं. 76/फा.सं. 355/8/81-सी.शु. I—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1981 के खण्ड 47, जो खण्ड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है के उपखण्ड (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 46-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 179 का लोप किया जाएगा।

[सं. 77/फा.सं. 355/8/81-सी.शु. I]

G.S.R. 219(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 47 of the Finance Bill, 1981, which clause has, by virtue of the declaration made in the said bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 46-Customs dated the 1st March, 1981, namely :—

In the Schedule to the said notification, Serial No. 179 shall be omitted.

[No. 77/F. No. 355/8/81-Cus. I]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं. 81-सी.शु. I—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 267/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 4 अक्टूबर, 1979 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड मारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ 3 में, “एक सौ चौतीस रुपये प्रति मीटरी टन” शब्दों के स्थान पर “दो सौ सैतीस रुपये प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 81-सी.शु. I/फा.सं. 355/8/81-सी.शु. I]

के. चन्द्रमौली, सचिव

(Central Excise)

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 267/79-Central Excise, dated the 4th October, 1979, namely :—

In the Table annexed to the said notification against S. No. 2 in column 3, for the words “Rupees one hundred and thirty four per metric tonne”, the words “Rupees two hundred and thirty three per metric tonne” shall be substituted.

[No. 81-CE/F. No. 355/8/81-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.